



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन 1934 (श०)
(सं० पटना 231) पटना, बृहस्पतिवार, 14 मार्च 2013

वित्त विभाग

अधिसूचनाएं

12 मार्च 2013

सं० 3ए-5से०नि०-10/2008(अंश)-2493-वि०—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सेवा संहिता, 1952 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2013

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ—(1) यह बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2013 कही जा सकेगी।
- (2) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
- बिहार सेवा संहिता के नियम-73 के उप-नियम (1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद अगले परन्तुक के रूप में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा:-

“परन्तु और भी, कि बिहार दंत चिकित्सा सेवा के चिकित्सा संवर्ग (शिक्षक/पदाधिकारी) के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की तिथि वह तिथि होगी जिस तिथि को वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, किन्तु यदि किसी माह की पहली तिथि को उनकी जन्मतिथि है, तो वे उसके ठीक पहले के माह की अंतिम तिथि के अपराह्न में सेवानिवृत्त होंगे।”

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

प्रभात शंकर,

सरकार के अपर सचिव।

The 12th March 2013

No. 3A-5.S.R.-10/2008(part)-2493-F—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, Governor of Bihar hereby makes the following amendment in Bihar Service Code, 1952:-

Bihar Service (amendment) Code 2013

1. *Short title and Commencement:*—(1) This may be called Bihar Service (amendment) Code 2013.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. The following proviso shall be added as the next proviso after the exiting provisos to sub-rule (1) of Rule 73 of Bihar Service Code-

"Provided further also that the date of retirement of the Members Medical Cadre of Bihar Dental Medical Service (Teacher and officers) shall be the date on which he attains the age of 65 Years, but if his date of birth is the first day of a month, then they will retire in the afternoon of the last day of immediate previous month of it."

By the Order of Governor of Bihar,

PRABHAT SHANKAR,

Additional Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 231-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>